



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 181]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 16, 1981/वैशाख 26, 1903

No. 181]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 16, 1981/VAISAKHA 26, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(अप्रत्यक्ष कर प्रभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 16 मई, 1981

सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 353 (अ).—केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 106-सीमाशुल्क, तारीख 3 अप्रैल, 1981 को अधिष्ठात करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकाहित में ऐसा करना आवश्यक है, इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट सामग्री को, जब उसका भारत में निर्यात किया जाए, उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमाशुल्क से जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, और उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क से, छूट देती है :

परन्तु यह तब जब कि आयातकर्ता, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अधीन 1 अप्रैल, 1981 में प्रारम्भ होने वाली

और 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए आयात नीति के परिशिष्ट 29 के अनुसार जारी की गई कोई आयात पूर्ण पूर्ति अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करे जिसमें ऐसी अनुज्ञप्ति जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित पृष्ठांकन हों, अर्थात् :—

(क) निःशुल्क आयात जो आयात नीति के परिशिष्ट 29 के अनुसार पुनः पूर्ति अनुज्ञप्ति के संबंध में हो ;

(ख) उक्त अनुज्ञप्ति के अधीन आयात किए जाने के लिए अनुज्ञप्ति की गई उक्त सामग्री का परिमाण और मूल्य; और

(ग) निर्यात किए गए उस उत्पाद का विवरण जिसके संबंध में उक्त सामग्री का आयात उक्त अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञात किया जाएगा ।

अनुसूची

1. स्टेनलैस इस्पात चादर या पट्टी (अचुम्बकीय)
2. पीतल का रस्त्र
3. जस्ता
4. 48 एस और उससे कम का कच्चा ऊन ।

[अधिसूचना सं. 142/81/फा. सं. 602/8/81-डी बी के]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Indirect Taxes Division)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 16th May, 1981

CUSTOMS

G.S.R. 353(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 106-Customs, dated the 3rd April, 1981, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the materials specified in the Schedule annexed hereto when imported in to India from the whole of the duty or Customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Act:

Provided that the importer shall produce an import replenishment licence, issued in terms of Appendix 29 of the Import Policy for the period commencing on the 1st day of April, 1981 and ending with the 31st day of March, 1982, under the Imports (Control) Order, 1955, containing the following endorsements by the authority issuing such licence, namely:—

- (a) Duty Free imports against REP Licence as per Appendix 29 of the Import Policy.
- (b) the quantity and the value of the said materials, allowed to be imported under the said licence; and
- (c) the description of the exported product against which import of the said materials would be allowed under the said licence.

SCHEDULE

1. Stainless Steel Sheets or Strips (Non Magnetic).
2. Brass Scrap.
3. Zinc.
4. Raw Wool of 48s and below.

[Notification No. 142/81-Cus./F. No. 602/8/81-DBK]

सा. का. नि. 354 (अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम 1981 (1981 का 18) के खण्ड 47 के उपखण्ड (4) के साथ

पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 1(1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 129 सीमाशुल्क, तारीख 12 मई, 1981 में, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में,—

(क) क्रम सं. 192 और उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाएगा।

(ख) क्रम सं. 19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“194 सं. 142-सीमाशुल्क, तारीख 16-5-1981”

[अधिसूचना सं. 143/सी. शु./फा. सं. 602/8-81-डी बी के]

जी. आर. शर्मा, उपसचिव

G.S.R. 354(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 47 of the Finance Act, 1981 (18 of act 1981) the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 129-Customs, dated the 12th May, 1981, namely:—

In the Schedule annexed to the said notification,—

- (a) serial No. 192 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (b) after serial No. 193 and the entries relating thereto, the following serial No. and entries shall be inserted, namely:—

“194 No. 142-Customs, dated the 16-5-1981.”

[Notification No. 143/81-Cus./F. No. 602/8/81-DBK]

G. R. SHARMA, Dy. Secy.